



केलकता [बीसीसीआइ आइपीएल के अंतरिम अध्यक्ष सुनील गावसकर ने आज स्वीकर किया कि इस बार आइपीएल में सट्टेबाजों ने दो क्रिकेटर्स से संपर्क किया था और इस बारे में भ्रष्टाचार नरोधक और सुरक्षा इकाई (सीसयू) अधिकारियों को बता दिया गया है। गावसकर से पूछा गया कि क्या इस आइपीएल में खलिआयों से सट्टेबाजों ने संपर्क किया, गावसकर ने कहा कि दो ऐसे मामले हुए और सीयू को इसके रिपोर्ट कर दी गई है। वे इसकी जांच कर रहे हैं।

इस महान बल्लेबाज ने इसके साथ ही कहा कि सट्टेबाजों का ब्रैडन मैकुलम से संपर्क करने संबंधी मसला चर्चाजनक है लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां तक इस क्रिकेटर्स का सीसयू के बीच बातचीत की गोपनीयता का सवाल है तो वह आइपीएल के दौरान लीक नहीं हुई। गावसकर ने पत्रकारों से कहा कि मैं आपके आश्वासन कर सकता हूँ कि लीक आइपीएल से नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि यह कैसे बाहर आया। यह चर्चा का विषय है। हमने इस बार हर टीम के साथ इंटीग्रिटी आफिसर रखा हुआ है। इससे खलिआयों के लिए आसानी हो गई है।

उन्होंने कहा कि कई बार खलिआयों को पता नहीं होता कि क्या करना है। संपर्क के लिए नंबर है लेकिन कई बार खलिआयों सोचते हैं कि यदि आप संपर्क करते हो तो आपके नंबर इस सूची में दर्ज हो जागा। गोपनीयता ऐसा पहलू है जिसके बाद खलिआयों सुनिश्चित नहीं थे। अब हर टीम के साथ आइओ के होने से काम काफी आसान हो गया है। अगर कोई किसी से संपर्क करता है तो वह अधिकारी को बता देता है और वह उसे आगे बढ़ाता है। गावसकर और आइपीएल संचालन परिषद में उनके साथी युवा और प्रतभाषाली क्रिकेटर्स की मदद के लिए वस्तुतः खाक तैयार करने की केशशि कर रहे हैं ताकि पैसे और स्टारडम के कारण वह बहक नहीं जायें।

{loadposition user13}

गावसकर ने कहा कि मैं सचिन, राहुल, वीवीएस और अनलि कुबले से बात करूँ। ये चारों इस खेल के महान खलिआयों हैं। वे समकालीन क्रिकेटर्स हैं और वर्तमान समय के दबाव, तनाव और परिस्थिति से वाकफ हैं। हमने लंबी बातचीत की। कबात उभर कर आई कि अधिकतर युवा खलिआयों को यह बताने की जरूरत है कि उन्हें अपना करियर कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आइपीएल से आपके अचानक प्रसिद्धि मिल जाती है। इसे बस स्तर पर कवर किया जाता है और इस लहाज से यह रणजी ट्राफी, दलीप ट्राफी और वजिय हजारे ट्राफी से काफी आगे है।

गावसकर ने इसके साथ ही कहा कि बीसीसीआइ इस पर विचार कर रहा है कि खेल का स्तर बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खलिआयों को कैसे उपयोग किया जायें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है सचिन और राहुल आगे आकर युवाओं की मदद करेंगे। खेल का स्तर बेहतर करना महत्त्वपूर्ण पहलू है। बीसीसीआइ में इस मामले पर विचार किया जागा कि अपने दिग्गज खलिआयों को कैसे उपयोग किया जायें।

(भाषा)